



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अक्तूबर 19, 1978/ आश्विन 27, 1900
No. 463] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1978/ASVINA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1978

का. आ. 600(अ).—सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधि-
नियम 8) के अधीन गठित बोर्ड, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31)
की धारा 72 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन 1 नवम्बर, 1966
की और उससे, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय
पर जारी किए जाएं, उन क्षेत्रों में जिनमें वह इस तारीख से तुरन्त पूर्व कार्यरत था,
कार्य करता रहेगा जब तक कि उक्त बोर्ड की बाबत विधि द्वारा कोई अन्य उपबन्ध
न किया जाए :

और उक्ता धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी किसी निदेश के अन्तर्गत
ऐसा निदेश भी होगा कि उक्त बोर्ड को नियंत्रित करने वाली किसी विधि का.

उस बोर्ड को लागू होने के संबंध में प्रभाव ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए होगा जो निवेश में विनिर्दिष्ट किए गए हों :

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती हैं कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) का प्रभाव, निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से होगा अर्थात् :—

धारा 70, 71, 74, 78 और 80 में “राज्य सरकार” शब्दों, जहां कहीं भी वे आए हों, स्थान पर “पंजाब राज्य की सरकार” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एस-13013/2/78-एस. आर.]

भाल चन्द्र वेशमुख, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1978

S. O. 600(E).—Whereas under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (3) thereof, the Board constituted under the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925) shall, on and from the 1st day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government until other provision is made by law in respect of the said Board;

And whereas under sub-section (2) of the said section 72, any such direction may include a direction that any law by which the said Board is governed shall, in its application to that Board, have effect, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3), of the said section 72, the Central Government hereby directs that the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925) shall have effect, as from the date of issue of this notification, subject to the following further modifications, namely :—

In sections 70, 71, 74, 78, 79 and 80 for the words “the State Government”, wherever they occur, the words “the Government of the State of Punjab” shall be substituted.

[No. S-13013/2/78-SR]

B. G. DESHMUKH, Additional Secy.